BHARAT EKANSH LIMITED

REGD. OFF. -H. No. 116, F/F, VILLAGE KOTLA, MAYUR VIHAR PHASE-I, NEAR HUKUM DAIRY, DELHI-110091 CIN: L74899DL1985PLC020973, Ph.No.9355777335-36,

Website: www.bharatekanshlimited.com, Email: bharat.ekansh.ltd@gmail.com

Dated: 23. 06.2021

To, Listing Department The Calcutta Stock Exchange Limited 7, Lyons Range, Murgighata, B B D Bagh, Kolkata, West Bengal-700001

Dear Sir/ Madam,

Sub: Copy of Newspaper Advertisement for Intimation of Board Meeting

Please find attached herewith the copy of intimation of Board Meeting for Audited Standalone and Consolidated Financial Results for the quarter and year ended on 31st March, 2021 as published in requisite newspaper as per requirement of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Kindly take the same on record.

Thanking you,

For Bharat Ekansh Limited

Mukesh Nagar *
Company Secretary &
Compliance Officer

S.N. SINHA COLLEGE TEKARI (GAYA)-824236 NAAC Accredited Grade 'B'

महाविद्यालय में सभी प्रयोगशालाओं हेतु उपस्कर एवं अन्य जरूरत का सामान, जिमनाजियम हेत उपस्कर, फॉल्स सीलिंग वाल पैनलिंग, कंप्यूटर लैब, विडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम एवं अन्य विभागों हेतु विभिन्न तरह के सामग्रियों की आवश्यकता है। सभी इच्छक आपूर्तिकर्ता अपनी निविदा मृहरबंद लिफाफे में दर एवं मेक के साथ आयकर प्रमाण पत्र, GST प्रमाण पत्र. अंकेषण प्रतिवेदन की छायाप्रति संलग्न करते हुए निविदा प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर महाविद्यालय कार्यालय में पंजीकृत डाक द्वारा जमा कराने का कष्ट करेंगे। सामग्री एवं उपकरणों/उपस्करों की सची/विवरण महाविद्यालय के वेबसाईट www.snscollegetekari.org पर देखा जा सकता है। विशेष जानकारी के लिए कार्यावधि में कार्यालय से संपर्क कर जानकारी प्राप्त की जा सकती है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

PUBLIC NOTICE

To be known to all that my client Sh. Sanjay Manuja S/o Mool Chand Manuja R/o Flat No E126/1, Block E, Ground Floor, DDA MIG Flat, Naraina Vihar, New Delhi 28, purchaser of Flat No E126/1 Block E, Ground Floor, situated in Naraina Residential Scheme, now known as Naraina Vihar, New Delhi 110028, has applied for conversion of the aforesaid flat from lease hold to free hold to DDA, vide application no 284615 dated 28.05.2021. Original Demand letter, possession letter, NOC for Water Electricity Connection and Site possession slip, of the above flat have been lost. FIR to this effect has been lodged in the police station Crime Branch, Delhi vide LR No 276617/2021 dt. 29.03.2021

Any person(s) claiming any right, interest, having any objection or in possession of original documents, may write/contact the above named person at the above address /Phone no 9810378098 within 15 days from the date of publication of this notice. The person claiming any right, interest or objection with respect to this property can personally inform or write to Deputy Director (LAB) Housing or Director (H), D Block, 3rd Floor, Vikas Sadan, INA, New Delhi.

CIN: L74899DL1985PLCO20973 पंजी. कार्या.: प्लॉट नं. 586, पॉकेट सी, आईएफसी, गाजीपुर, ईस्ट दिल्ली-110096 Ph. No.: +91 9355777336;

भारत एकांश लिमिटेड

Website: www.bharatekanshlimited.com E-mail: bharat.ekansh.limited@gmail.com सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा)

विनियमन, 2015 के विनियमन 29, विनियमन 47 तथा लागु होने वाले अन्य विनियमनों, यदि कोई हो, के अनुपालन में एतदुद्वारा सुचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक अन्य बातों के अलावे 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष के लिये कम्पनी के अंकेक्षित वित्तीय परिणामीं (स्टैंडएलॉन एवं समेकित) पर विचार तथा अनुमोदन के लिये बुधवार, 30 जून, 2021 को आयोजित की जायेगी। यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात्

www.bharatekanshlimited.com पर भी भारत एकांश लिमिटेड के लिये तिथि: 23.6.2021

मुकेश कुमार नागर

अधिनियम के अध्याय XXI के भाग I के

कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

तहत पंजीकरण के विषय में सूचना देते हुए

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 374(बी) -तथा कम्पनी (पंजीकरण हेतु अधिकृत) नियम, 2014 के नियम 4(1) के अनुसार]

एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 366 की उपधारा (2) के अनुसार रजिस्टार आरओसी दिल्ली के समक्ष अबसे पन्द्रह दिनों के पश्चात किन्तु तीस दिनों की समाप्ति से पूर्व एक आवेदन किया जाना प्रस्तावित है कि डीई नीर्स दुल्स एलएलपी को कम्पनी अधिनियम 2013 के अध्याय XXI के भाग I के तहत शेयरों द्वारा कम्पनी

कम्पनी के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं एलएलपी का व्यवसाय हार्डवेयर तथा उपकरणों का नियमावली की एक प्रति कार्यालय 3512, गली

लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया जाये।

हाकिम बग्गा, हौज काजी, दिल्ली मध्य, **दिल्ली**-110006 **भारत** पर निरीक्षित की जा सकती एतद्वारा सुचित किया जाता है कि इस आवेदन पर

आपत्ति करने वाला कोई व्यक्ति रजिस्टार, केंद्रीय पंजीकरण केंद्र (सीआरसी), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स (आईआईसीए), प्लॉट सं. 6, 7, 8, सेक्टर 5, आईएमटी मानेसर, जिला गुरुग्राम (हरियाणा), पिनकोड-122050 पर तथा कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय पर एक प्रति भेजते हुए लिखित में अपनी आपत्तियाँ इस सचना की प्रकाशन की तिथि से इक्कीस दिनों के भीतर भेज

आवेदक(कों) के नाम

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए (1) के अधीन

फ्लोरा डाइंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड कार्पोरेट देनदार का नाम कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि 22 अप्रैल 1999 प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार रजिस्टार ऑफ कंपनीज— नई दिल्ली कम्पनी अधिनियम 1956 के अंतर्गत निगमित / पंजीकृत है कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान U24299DL1999PTC099429 संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय पंजी, कार्यालयः तीसरी मंजिल, सी -6, DSIDC इंडस्ट्रियल तथा प्रधान कार्यालय (यदिँ कोई) का पता एरिया, रोहतक रोड, नांगलोई, दिल्ली — 110041 कार्य स्थल: प्लॉट नंबर 392, HSIDC, बरही, जिला सोनीपत

हरियाणा -- 131028 कार्पोरेट देनदार की ऋण शोध अक्षमता 07 अप्रैल 2021 (आदेश प्राप्ति की प्रारंभन की तिथि तिथि 12 अप्रैल 2021) अभिरूचि की अभिव्यक्ति के आमंत्रण की तिथि 22 जून 2021

संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान cirp.fdh@gmail.com पर ईमेल भेजकर आवेदकों की ग्राह्मता प्राप्त किया जा सकता है 9. धारा 29क के अधीन लागू अग्राह्मता के मानदंड : cirp.fdh@gmail.com पर ईमेल भेजकर

प्राप्त किया जा सकता है अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेत् अंतिम तिथि। 08 जुलाई 2021 संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची 18 जुलाई 2021 तारी करने की तिथि अंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने 23 जुलाई 2021 हेत् अंतिम तिथि संगावित समाधान आवेदकों की अंतिम सची 02 अगस्त 2021 जारी करने की तिथि

संभावित समाधान आवेदकों को सूचना झापन, 23 जुलाई 2021 मल्यांकन मैटिक्स तथा समाधान योजना हेत् प्रनरोध जारी करने की तिथि समाधान आवेदक सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स समाधान योजना, मूल्यांकन मैट्रिक्स, सूचना ह्यापन तथा अतिरिक्त सूचना हेतु अनुरोध प्राप्त पते पर समाधान प्रोफेशनल के साथ संवाद कर सकते हैं । समाधान योजना प्रस्तुत करने हेत् अंतिम तिथि समाधान प्रोफेशनल को समाधान योजना सौंपने

ईमेल आईडी cirp.fdh@gmail.com पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में और स्पीड पोस्ट / मुहरबंद लिफाफे में व्यक्तिगत डिलीवरी द्वारा 8. निर्णायक प्राधिकारी के अनुमोदन हेतु समाधान 15 सितम्बर 2021 योजना प्रस्तुत करने हेतु अनुमानित तिथि समाधान प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन पंजी.सं.:IBBI/IPA-001/IP-P01072/2017-2018/11763 समाधान प्रोफेशनल का नाम, पता और ई-- मेल 24-ए, पॉकेट-ए, डीडीए एलआईजी फ्लैट्स, हरि नगर. नई दिल्ली-110064 ई मेल : hka.consutants@gmail.com जैसाकि बोर्ड में पंजीबद्ध है पता और ई-मेल, जो समाधान प्रोफेशनल के हेमंत गुप्ताः साथ पत्राचार के लिए प्रयुक्त किया जाना है 24-ए, पॉकेट-ए, डीडीए एलआईजी पलैटस, हरि नगर, नई दिल्ली-110064 **ई मेल** : cirp.fdh@gmail.com अतिरिक्त विवरण पर अथवा के पास उपलब्ध है

समाधान प्रोफेशनल, फ्लोरा डाइंग हाउस प्राइवेट लिमिटेड के मामले में तिथि : 22 जून 2021 स्थान : नई दिल्ली पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P01072/2017-18/11763

KAPIL RAJ FINANCE LIMITED

(CIN - L65929DL1985PLC022788)

Club Road, West Punjab bagh, New Delhi - 110026 Admin Office: 204B, Platinum Mall, Jawahar Road, Ghatkopar (East), Mumbai - 400077 Fel.No: 91-22-6127 5175, Email: kapiirajfin@gmail.com, Website: www.kapiirajfinanceitd.com

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

Video Conferencing/other Audio Visual Means("VC/OAVM") The following additional information in the Notice is hereby notified through this Corrigendum

In the resolution of Item no 2 and explanatory statement Item No 2 wherever the reference of regulation of chapter VII of SEBI (ICDR),2009 and Regulation of SEBI(ICDR), 2009 is appearing to be read as regulation of Chapter V of Sebi (ICDR), 2018 and Regulation of

In the resolution of Item no 2, 5,10,00,000 (Five Crore Ten lakhs) convertible warrants at a Price of 10/- each shall be read as 51,00,000(Fifty One Lakh) Convertible warrants at a Price

 In the resolution of Item no 2 pan of Amit Kothari is EDEPK7756H instead of DGEPK5582A. In the resolution of Item no 2 against the table mentioning the name of the proposed allotees

In the Explanatory statement Item No 2 Part b after the disclosure the following shall be inserted None of the other Directors or KMP, Promoter of the Company intend to subscribe to

In the Explanatory statement Item No 2 Part c the subtotal of (B) shall be read as pre issue holding total 5140000 total percentage 100% and post issue holding 10240000 total

In the Explanatory statement Item No 2 Part E regarding ultimate beneficial owners of the proposed allottees in respect of the Sr. No. 9,14,15 and17 shall be read as under instead of

S.No	Name & Address of the proposed Allottees	Identity of the Natural person who is the ultimate Beneficial owner		
9	VIKRAM SINGH AND SONS HUF	Vikram Singh (Karta)		
14	HAWA SINGH & SONS HUF	Hawa Singh(Karta)		
15	KARAN SINGH & SONS HUF	Karan Singh(Karta)	ĺ	
17	RAM SINGH & SONS HUF	Ram Singh(Karta)		

HUF is (Karta Vikram Singh) instead of (Vikram Singh) and the symbol of UBO of Sheorayan Engineers & Associates Private Limited is ## instead of # In the Explanatory statement Item No 2 Part J wherever NSE if appearing should be read as

In the Explanatory statement Item No 2 Part M, the certificate from practising Chartered

Accounted shall be read instead of Independent Statutory Auditor In the Explanatory statement Item No 2 after the Part M, Part N shall be inserted as: Particulars of the issue including the maximum number of specified securities to be issued

The Company is proposing to issue 51,00,000 convertible warrants at a Price of 10/- each to non promoters in terms of the Chapter V of SEBI (ICDR) Regulations, 2018. This Corrigendum is also being placed at the website of the Company and at the website of the Exchange. By and on behalf of the Board

For KAPIL RAJ FINANCE LIMITED Komal Jain Company Secretary

गाजियाबाद, जिला= गाजियाबाद

निम्नलिखित ऋणग्राहियों / जमानतदारों (गारन्टर / बंधककर्ता) को वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण तथा पुनः निर्माण एव प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत प्रतिभृतिहित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढते हुए अनुच्छेद 13(2) के अन्तर्गत (डिमांड नोटिस) मांग सूचना नीचे उल्लेखित तिथि को भेजे गये थे, ये डिमांड नोटिस खाताधारकों के स्वीकार न करने की टिप्पणी के साथ वापिस आ गये । आपको सलाह दी जाती है कि आप इस प्रकाशन की तिथि से निम्न वर्णित धनराशि तथा ब्याज एवं अन्य खर्चो का भुगतान 60 दिन के अन्दर करें अन्यथा बैंक सरफेसी अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्बन्धित सम्पत्ति को अपने कब्जे में लेकर बिक्री की कार्यवाही करेगा। सरफेसी अधिनियम 13 (13) के अन्तर्गत इस नोटिस की प्राप्ति पर आपको बैंक की सहमति के बिना सम्पत्तियों से किसी प्रकार का क्रय विक्रय व अन्तरण अवैध होगा उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। सम्पत्ति में किसी प्रकार का क्रय विक्रय **यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, शाखा कविनगर,**

दिनांकः २२.०६.२०२१ स्था	न—गाजियाबाट पाछिकत अधिका	री यनियन बै	क ऑफ इंडिया
विहार रोहिणी सेक्टर-14, दिल्ली- 110085	चीडा रास्ता।	31.05.2021	एवं अन्य खर्चे
 नुरूल इस्लाम पुत्र अब्दुस सलाम, ए-285, प्रसांत 	34, उत्तरः प्लॉट नं0 272, दक्षिणः 120 फीट	T-OTTOT	441 1 34131
तल बस्ती हजरत निजामुद्दीन नई दिल्ली- 110013,	पूर्वः 36 फीट चौडा रास्ता, पश्चिमः प्लॉट नं0	एनपीए की	को + ब्याज
2. जिया हसन निजामी पुत्र श्री निजामी, 104, द्वितीय	गाजियाबाद, क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर। सीमाएँ :-		9525451 1527 1459 V
ज्ञान खंड-1, इन्द्रापुरम, गाजियाबाद, (उ०प्र०)-201001,			19,32,899.26 दिनांक
ऋणीः 1. जोहा इस्लाम पुत्री श्री गुरदीप सागृ, 1/271			₹0
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	-9		
ऋणा / गारन्टर क नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	की तिथि	अनुसार बकाया

दिनाकः 22.06.2021

उत्तराखण्ड पावर कारपरिशन लि०

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, डोईवाला दूरभाष : 0135-2695245 निविदा सूचना

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा अनुभवी प्रतिष्ठित ठेकेदारों / फर्म से जिनके पास विद्युत कार्यों हेत् उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदत्त प्रथम श्रेणी का राजकीय विद्युत ठेकेदारी लाइसेन्स हो तथा जो आयकर, जी०एस०टी०, ई०एस०आई० तथा ई०पी०एफ० के अन्तर्गत पंजीकत एवं पैन कार्ड धारक से मोहर बन्द निविदाएं दो भागों में (प्रथम भाग में धरोहर राशि, नियम व शतेँ, आयकर, जी०एस०टी०, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी प्रथम श्रेणी का विद्युत ठेकेदारी लाइसेन्स, ई०पी०एफ० ई०एस०आई० . पैन कार्ड की प्रतिलिपि आदि एवं द्वितीय भाग में दरें जो की निविदा खलने की तिथि से कम से कम 06 माह के लिए वैध हो) दिनांक 02.07.2021 को 15.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, जो कि उसी दिन 15.30 बजे उपस्थित निविदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के सम्मुख अद्योहस्ताक्षरी द्वारा सार्वजनिक रूप से खोली जायेंगी।

निविदा प्रपत्र किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 01.07.2021 तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में भुगतान जमाकर 15.00 बजे तक क्रय किये जा सकते हैं। निविदा की धरोहर राशि निम्नानुसार किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक की एफ.डी.आर. / सी.डी.आर. के रूप में अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड डोईवाला के पक्ष में बन्धक होनी चाहिए तथा एफ.डी.आर. / सी.डी.आर. निविदा प्रकाशन तिथि के बाद की होनी अनिवार्य है। बिना धरोहर राशि के या अपूर्ण / गलत राशि की होने पर निविदा भाग-2 नहीं खोला जायेगा। निविदा खुलने की तिथि को अवकाश होने पर निविदाऐं अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। अद्योहस्ताक्षरी को बिना कारण बतायें, निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित हैं। विस्तृत नियम व शर्ते निविदा प्रपत्रों में उपलब्ध है।

निविदा संख्या	कार्य का नाम विद्युत वितरण खण्ड डोईवाला के अन्तर्गत लो-वोल्टेज समस्या के निवारण हेतु परिवर्तकों की क्षमतावृद्धि एवं नये सबस्टेशन के निर्माण कार्य।		निविदा प्रपन्न मूल्य एवं जी०एस०टी० 250.00+जीएसटी अतिरिक्त	
05 / वि०वि०ख०डो० / 2021—22				
06 / वि०वि०ख०डो० / 2021—22	विद्युत वितरण खण्ड डोईवाला के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त परिवर्तकों को बदलने का कार्य।	12000.00	250.00+जीएसटी अतिरिक्त	

विद्यत वितरण खण्ड, डोईवाला

मांग नोटिस मांग नोटिस के

SHARIKA ENTERPRISES LIMITED CIN: L51311DL1998PLC093690

Regd. Office: S-550-551, School Block Part-2, Welcome Plaza, Shakarpur, Delhi-110092, Tel No: +91 120 2593900 Email: cs@sharikaindia.com, Website: www.sharikaindia.com

Pursuant to Regulation 29 and Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, Notice is hereby given that Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, June 30, 2021 at 04:00 p.m. to, consider and approve, interalia, the Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the year ended

This notice is available on the website of the Company (www.sharikaindia.com) and on the website of BSE(https://www.bseindia.com) and members may refer to the same for details.

For Sharika Enterprises Limited Place: Delhi Kush Mishra

Company Secretary & Compliance Officer

शाब्लोना इंडिया लिमिटेड CIN: L51109DL1983PLC318655

Date: June 22, 2021

नई दिल्ली-110041, दूरभाष : 011-2834 1085 वेबसाइट : www.schablona.in, ई-मेल आईडी : silinvestors@schablona.in 31.03.2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु लेखापरीक्षिक वित्तीय परिणामों का विवरण

पंजीकृत कार्यालय : 82/19, भाकेरवाड़ा रोड, मुंडका

	विवरण	समाप्त	समाप्त वर्ष	गत वर्ष में
		तिमाही	31.032021	समाप्त संगत
		31.032021		माह
				31.03.2020
	8	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित	लेखापरीक्षित
1	प्रचालनों से कुल आय	14.62	57.19	25.86
2	अवधि हेतु (कर, अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों से पूर्व) निवल लाभ/(हानि)	(26.96)	(90.82)	6.90
3	कर पूर्व अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) निवल लाभ/(हानि)	(26.96)	(90.82)	6.90
4	कर पश्चात अवधि हेतु (अपवादित तथा/अथवा असाधारण मदों के पश्चात) निवल लाभ/(हानि)	(26.96)	(90.82)	6.90
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय [अवधि हेतु (कर पश्चात) लाभ/(हानि) तथा अन्य व्यापक आय (कर पश्चात) से मिलकर]	(27.12)	(90.98)	6.69
6	इक्विटी शेयर पूँजी	126.37	126.37	126.37
7	आरक्षितियाँ (गत वर्ष के लेखापरीक्षित तुलन पत्र में प्रदर्शित के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितियों को छोड़कर)	-	(2,289.71)	_
8	रु. 4/- प्रत्येक के आय प्रति शेयर (असाधारण म	दों के पूर्व/पश्च	ात)	
	1. बेसिक	(0.86)	(2.88)	0.21
	2. डाइल्यूटेड	(0.86)	(2.88)	0.21

उपर्युक्त सेबी (सूचीबद्धता दायित्व तथा प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 33 के तहर स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात बीएसई लिमिटेड के साथ दर्ज समाप्त तिमाही एवं वर्ष के वित्तीय परिणामों के ं प्रारूप का सारांश है। समाप्त तिमाही तथा वर्ष के वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप बीएर लिमिटेड की वेबसाइट अर्थात www.bseindia.com तथा कम्पनी की वेबसाइट अर्थात www.schablona.in पर उपलब्ध है।

कृते शाब्लोना इंडिया लिमिटेड (सतीश सी. विश्वकर्मा अधिशासी निदेशक एवं सीएफओ स्थान : नोएडा तिथि : 22.06.2021 (डीआईएन : 06891937

ARCHIDPLY

आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड (CIN: L85110UR1995PLC008627)

पंजी. कार्यालय: प्लॉट नं. ७, सेक्टर-७, इन्टीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट्स, सिडकुल, पंतनगर, ऊधम सिंह नगर, रुद्रपुर, उत्तराखंड-263153 Phone: 05944-250270, Fax: 05944-250269 कॉर्पो. कार्यालय: 2/9, 1ला तल, डब्ल्यू.एच.एस., कीर्ति नगर, नई दिल्ली-110015

Phone: 011-45642555, Website: www.archidply.com, Email: cs@archidply.com

(आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों के ध्यानार्थ)

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सदस्यों की छब्बीसवीं (26वीं) वार्षिक साधारण सभा कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी क्रमशः साधारण सर्क्युलर सं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 5 मई, 2020 (''एमसीए सर्क्युलर्स) तथा भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्क्यूलर नं. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी 1/सीआईआर/पी/2020/79 तिथि 12 मई, 2020 (''सेबी सर्क्युलर) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015, समय-समय पर यथा संशोधित के अनुपालन में किसी सामृहिक स्थान पर सदस्यों की शारीरिक उपस्थिति के बिना विडियो कान्फ्रेंसिंग (''वीसी'')/अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (''ओएवीएम'') द्वारा सोमवार, 26 जुलाई, 2021 को आयोजित की जायेगी जिसमें एजीएम की सूचना तिथि 18 जुन, 2021 में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित किया जायेगा।

उपरोक्त एमसीए एवं सेबी सर्क्युलर्स के अनुपालन में अन्य बातों के अलावे बीसी/ओएवीएम द्वारा एजीएम में शामिल होने की प्रक्रिया तथा निर्देशों से शामिल 26वीं एजीएम की सूचना तथा साथ ही वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के साथ निष्पादित होने वाले व्यावसायिक मदों तथा वार्षिक रिपोर्ट के साथ व्याख्यात्मक विवरण इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति में ऐसे सदस्यों को भेजे जाएंगे जिनके ईमेल पते कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीकृत हैं। सदस्यों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता वर्ष 2021 के लिये एमसीए तथा सेबी सर्क्युलर्स द्वारा समाप्त कर दी गई है। उक्त दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक प्रेषण 29 जून, 2021 या उससे पूर्व पूर्ण कर लिये जाने की आशा है।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली. 2014. समय-समय पर यथा-संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सुचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 (सूचीयन विनियमन) के विनियमन 44 के अनुपालन में यह कम्पनी एजीएम की सूचना में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर इलेक्टॉनिक रूप से मतदान करने में उन्हें सक्षम बनाने के लिये अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग सुविधा तथा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सुविधा सहर्ष उपलब्ध करा रही है।

भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक पद्धत्ति में शेयर धारित करने वाले ऐसे सदस्यों जिनके ईमेल पते कम्पनी/उनके संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स के पास पंजीकृत नहीं हैं, से अनुरोध है कि अपने नाम, सम्पूर्ण पते, फोलियो नम्बर, कम्पनी में धारित शेयरों की संख्या का उल्लेख करते हुए सदस्यों द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित पत्र के साथ पैन कार्ड तथा अधोलिखित दस्तावेजों में से कोई एक जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसैन्स, मतदाता पहचान पत्र, पारपोर्ट, उपयोगिता बिल अथवा ईमेल द्वारा एजीएम की सूचना के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2021 प्राप्त करने के लिये कम्पनी में यथा पंजीकृत सदस्यों के पते के प्रमाण के समर्थन में किसी अन्य सरकारी दस्तावेज की स्कैन की गई प्रति यथा शीघ्र cs@archidply.com या Kishore.bv@kfintech.com पर भेज कर अपना ईमेल पता पंजीकृत करा लें। डीमैट पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्टस के पास अपना ईमेल पता अद्यतन करा सकते हैं।

कृपया ध्यान रहे कि स्कैन की गई उक्त दस्तावेजों के आधार पर ईमेल पते का अद्यतनीकरण/ पंजीकरण केवल 26वीं एजीएम की सचना तथा 2020-21 के लिये वार्षिक रिपोर्ट भेजने के उद्देश्य से ही किया जायेगा तथा उसके बाद 26वीं एजीएम के तत्काल बाद आरटीए के अभिलेखों से उसे निष्क्रिय कर दिया जायेगा। अतः वार्षिक रिपोर्ट, सुचनाएं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से कम्पनी से अभिलेखों सहित भविष्य के सभी सुचनाओं को प्राप्त करने के लिये आपको आरटीए के पास उपरोक्त दस्तावेजों की हार्ड कॉपीज के साथ ई-मेल आईडी अद्यतनीकरण अनुरोध भेजना होगा।

सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है किः

क. रिमोट ई-वोटिंग 23.7.2021 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी; ख. रिमोट ई-वोटिंग 25.7.2021 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी:

ग. रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग द्वारा मतदान की पात्रता सनिश्चित करने के लिये कट-ऑफ तिथि 19.7.2021 है;

घ. यदि कोई व्यक्ति कम्पनी द्वारा सुचना के ई-मैलिंग के बाद कम्पनी का शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी का सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि को भौतिक/ डिमैट शेयर्स धारित करते हैं. वे helpdesk.evoting@cdslindia.com पर अनुरोध भेजकर या 022-23058542/43 पर कॉल कर लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं। डीमैट/ भौतिक पद्धति में शेयरधारित करने वाले सदस्यों जिन्होंने सत्यापन के विवरणों जैसे फोलियो नं., डीपी आईडी/ क्लाइन्ट आईडी, पैन (स्कैन की गई प्रति) , डीमैट खाता के विवरण के साथ अपने ईमेल आईडी पंजीकृत/ अपडेट नहीं कराये हों, के द्वारा भी उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जायेगा।

ड. रिमोट ई-वोटिंग 25.7.2021 को 5.00 बजे अप. के बाद बंद होगी तथा उसके बाद सीडीएसएल द्वारा निष्क्रिय कर दी जायेगी। सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद सदस्यों को उसमें परिवर्तन की अनमति नहीं होगी:

च. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों, उनके लिये एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सविधा उपलब्ध होगी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पूर्व रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर दिये हों. वे वीसी/ ओएवीएम सविधा द्वारा एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन फिर से मतदान के लिये

छ. केवल ऐसे व्यक्ति जिनके नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर या डिपॉजिटरीज द्वारा प्रबंधित लाभभोगी स्वामियों की सुची में दर्ज होंगे, वे ही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम के दौरान ई-वोटिंग सविधा प्रदान करने के लिये अधिकत होंगे:

ज. स्वच्छ तथा पारदर्शी तरीके से रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिये श्री रजनीश शर्मा, मै. रजनीश शर्मा एंड कं., के प्रॉप्शईटर, कम्पनी सचिव (सीपी नं. 24210) को पर्यवेक्षक नियक्त किया गया है; झ. यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिये सीडीएसएल में पहले से ही पंजीकृत हैं तो मतदान करने

के लिये वे अपने वर्तमान यूजर आईडी तथा पास्वर्ड/पिन का प्रयोग कर सकते हैं। यदि सदस्य अपना पास्वर्ड भूल गये हों तो वे www.evotingindia.com पर उपलब्ध "forgot User Details/पास्वर्ड'' विकल्प का उपयोग कर उसे रिसेट कर सकते हैं। एजीएम की सचना तथा वार्षिक रिपोर्ट i) कम्पनी की वेबसाईट www.archidply.com, ii) सीडीएसएलः www.evotingindia.com, iii) स्टॉक एक्सचैंजः www.bseindia.com तथा

www.nseindia.com पर भी उपलब्ध होगा। एजीएम से पूर्व या उसके दौरान किसी भी प्रश्नों के लिये आप www.evotingindia.com पर सहायता खंड के अंतर्गत उपलब्ध सदस्यों के लिये frequently Asked Questions (FAQ's) तथा e-voting user manual देखें अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com ईमेल करें या श्री नितिन कुण्डेर (022-23058738) अथवा श्री मेहबूब लखानी (022-23058543) या श्री राकेश डाल्वी (022-

23058542) से सम्पर्क करें। इलेक्ट्रानिक माध्यमों द्वारा मतदान की सुविधा से संबंधित सभी समस्याएं श्री राकेश डाल्वी, प्रबंधक (सीडीएसएल), सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेस (इंडिया) लिमिटेड, ए-विंग, 25वां तल, मैराथन फ्यूचुरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउण्ड्स, एनएमजोशी मार्ग, लोअर परेल (ईस्ट), मुम्बई-400013 को संबोधित की जा सकती है अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com को ईमेल भेजें अथवा 022-

23058542/43 पर कॉल करें। आर्किडप्लाई इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिये स्थानः दिल्ली अतुल कृष्ण पाण्डेय तिथि: 22.06.2021 कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड

पंजी. कार्यालय : 19वां के एम., हापुड-युलंदशहर रोड, पी.ओ. गुलावडी, जिला बुलंदशहर- 203408 (उत्तर प्रदेश) सीआईएन : L33200UP1993PLC015474 ई-मेल : cs_cfhl@jindalgroup.com वेबसाइट : www.consofinvest.com फोन: 011-26139256, 40322100

सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के साथ पठित

विनियम 47 के अनुसरण में सूचना में एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लिमिटेड के निदेशक मंडल की एक बैठक कम्पनी के प्रधान कार्यालय में बुधवार, 30 जून, 2021 को आयोजित की जाएगी, जिसमें अन्य विषयों के साथ, 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही / वर्ष हेत् कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामाँ पर विचार एवं अनुमोदन उक्त सूचना कम्पनी की वेबसाइट

www.consofinvest.com तथा स्टाक एक्सचेन्जेज की वेक्साइट नामतः www.nseindia.com पर भी उपलब्ध हैं। वास्ते कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट एंड होल्डिंग्स लि दिनांक : 22.06.2021

SHASHANK TRADERS LIMITED L52110DL1985PLC021076

स्थान : नई दिल्ली

कम्पनी सचिव

702-A, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, Connaught Place, New Delhi 110001 Email:info@shashankinfo.in NOTICE Pursuant to Regulation 29 of the SEBI

(Listing Obligation and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, June 30, 2021 to consider, approve and take on record Standalone Audited Financial Results of the Company for the Quarter and year ended March 31, 2021.

For SHASHANK TRADERS LIMITED Nipun Jain Date: June 21, 2021 Director Place: Delhi DIN:-05289775

नाम सिक्योरिटीज लिमिटेड

सीआईएन: L74899DL1994PLC350531 पंजीकृत कार्यालयः 213, अरुणाचल बिल्डिंग, 19, बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली-110001 ई-मेल आईडी: compliance@namsecurities.in वेबसाइटः www.namsecurthesin दूरभाष: 011-23731122/44

सेबी (सूचीबद्धता दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार एतद्वार सूचना दी जाती है कि अन्य बातों के साथ-साथ 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही तथा वर्ष हेतु कम्पनी के लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार करने तथा अनुमोदन के लिए नाम सिक्योरिटी लिमिटेड के निदेशक मण्डल की एक बैठक बुधवार, 30 जून 2021 को इसके पंजीकृत कार्यालय 213, अरुणाचल बिल्डिंग, 19 बाराखम्भा रोड, नई दिल्ली–110001 पर 2.00 बजे अपराह्न आयोजित की जायेगी। पुनः सेबी (आन्तरिक व्यापार निषेध) (संशोधन) विनियम, 2018 के प्रावधानों के अनुसार व्यापार निषेध अवधि के सम्बन्ध में 2 अप्रैल, 2019 को इनसाइंडर तथा बीएस एवं बाहरी द्वारा ट्रेडिंग के विनियमन, निगरानी तथा प्रतिवेदन र संचालन के लिए कम्पनी की आचार संहिता के कारण व्यापारिव खिड़की 30 जून, 2021 को परिणामों की घोषणा की पूर्णता के 48

(https://www.bseindia.com/) तथा कम्पनी की वेबसाइट (http://mwe.namsecurilies.in/) पर उपलब्ध है। कृते नाम सिक्योरिटीज लिमिटेड स्थानः दिल्ली (दिट्या बिश्ट कम्पनी सचिव एवं अनुपालन अधिकार्र

य.पी. एसबेस्टस लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय :

पो. ऑफ. मोहनलालगंज, लखनऊ-226301 (यू.पी.) एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि 24 जुन 2021 को निर्धारित निदेशक मंडल की बैठक अपरिहार्य कारण से रदद की जाती है।

अतः सुचित किया जाता है कि सेबी (सुचीबद्ध दायित्वों एवं प्रकाटिकरण आवश्यकताओं) अधिनियम 2015 के अंतर्गत विनियम 29(1)(अ) के नियमन 47 के अनुसार कंपनी के निदेशक मण्डल की बैठक दिनांक 28 जून, 2021 को अपरान्ह 01:30 बजे महमदाबाद एस्टेट बिल्डिंग, 15-हजरतगंज, लखनऊ में आयोजित की जाएगी, जिसमे कार्यसूची के अनुसार अन्य विषयों के साथ लेखा परीक्षा के दिनांक 31.03.2021 को समाप्त तिमाही / वार्षिक के वित्तीय परिणामों पर विचार किया जाएगा।

क्ते यू.पी. एसबेस्टस लिमिटेड हस्ता/ (मनीष कुमार सिंह) दिनांक : 22.06.2021

Innovative Tech Pack Limited CIN: L74999HR1989PLC032412 Registered Office: Plot No. - 51, Roz

Ka Meo Industrial Area, Sohna,

Distt. Gurugram 122103 (Haryana) Website: www.itplgroup.com, Email.: grievence@itplgroup.com Tele. No.: 0120-7195236-239,

oursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please be informed that Meeting of Board of Director of the Company will be held at 803-805, 8th Floor, Tower-2, Assotech Business Cresterra, Plot No. 22, Sector 135, Noida-201301 on Wednesday, the 30th day of June, 2021 inter-alia, to consider and approve the following:

To consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31" March

To consider and take on record the Statutory Auditor's Report on Audited Financial Results of the Company for year ended on 31st March, 2021; and

To consider and approve any other agenda item as place on Board. Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and as per the BSE circular LIST/COMP/O1/2019-20 dated April 2, 2019. the Trading Window for the securities of the ompany has already been closed from Apr 1, 2021 till 48 hour after the declaration of Audited Financial Results.

For Innovative Tech Pack Limited Place: Noida Mukesh Kumar Date: 22.06.2021 Company Secretary

लेटेंट लाइट फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में गैलेक्सी कमर्शियल लिमिटेंड के नाम से जाना जाता था पंजीकृत कार्यालय : 120, लोकल शोपिंग सेंटर , अरबिंदो प्लेस, हौज खास, नई दिल्ली - 110016 फोन नंबर:- 011-41074949/ फैक्स नंबर:-011-41074949

वेबसाइट : www.LLFL.in सीआईएन: L74130DL1984PLC019469

ई-मेल: galaxycommerciallimited@gmail.com

सेबी (एलओडीआर) विनियमन, 2015 वे विनियमन 47 के प्रावधानों के अनुपालन में एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के निदेशक मंडल की एक बैठक बुधवार 30 जून, 2021 को आयोजित की जाएगी जिसमें अन्य विषयों के साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष (अंकेक्षित) तथा उस तिथि को समाप्त तिमाही के लिए कम्पनी के वित्तीय परिणामों तथा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य किसी व्यवसाय पर विचार तथा अनुमोदन किए जाएंगे। इस सूचना की प्रति कंपनी की वेबसाईट

www.LLFLI.in तथा स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात www.bseindia com पर उपलब्ध है। लैटेन्ट लाइट फाइनांस लिमिटेड

> (पूर्व में गैलेक्सी कॉमर्सियल लिमिटेड विदित हस्ता./ तिथिः 22 जून, 2021 यश गुप्ता

> > कम्पनी सचिव

स्थानः नई दिल्ली

www.uprnn.co.in.

तिथि: 11.5.2021

स्थानः नई दिल्ली

Uttar Pradesh Rajkiya Nirman Nigam Ltd. **Etawah Zone**

Notice No.: 122/PM/Suda Unit Mathura/E-Tender/RNN/2021 Dated: 19.06.2021 E-Tender Press Notice The Project Manager, Suda Unit Mathura invites for and on behalf of Managing Director U.P. Rajkiya Nirman Nigam Ltd. Online percentage rate bids in two bid system for the work of Construction of Ladies & Gents Toilet Block, Tennis Court and High Mask Light at Sport Stadium Ganeshra, Mathura (U.P.) The bid forms and other details can be obtained/downloaded from the website: https://etender.up.nic.in The NIT is also available on

> 'प्रपत्र सं. आईएनसी-26' [कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

केन्द्र सरकार, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 13 की धारा (4) तथा कम्पनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप-नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

कुबेर एजुकेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय 717, पॉकेट डी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली-110095 में है, के मामले में एतदुद्वारा आम जनता को सुचित किया जाता है कि ''रा.रा. क्षेत्र दिल्ली'' से ''उत्तर प्रदेश राज्य'' में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिये 10.6.2021 को आयोजित असाधारण आमसभ में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है। कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, वे एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकर कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथ पत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति

क्षेत्रीय निदेशक के पते उत्तरी क्षेत्र, बी-2 विंग, 2रा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110003

में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकत डाक से भेजें: 717, पॉकेट डी, दिलशाद गार्डन, दिल्ली, पूर्वी दिल्ली-110095

कृते एवं के लिये कुबेर एजुकेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड सरस्वती प्रसाद वर्मा निदेशक DIN: 02661531 रवि कुमार फुटेला

निदेशक DIN: 09037873

Project Manager

कार्यालय नगर पंचायत खुटार, शाहजहाँपुर दिनांक- 21 जून, 2021 पत्रांक- 620/न.प.ख्./2021-22

ई-निविदा समस्त फर्मों/ ठेकेदारों को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में नगर पंचायत खुटार को 15वॉ वित्त आयोग (टाईड ग्राण्ट) के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से कराये जाने वाले कार्यों को निम्न विवरण के अनुसार दिये गये कार्यों को कराना चाहती है। जिसके लिए ई-निविदायें वेबसाईट www.etender.up.nic.in पर निविदायें दिनांक 23.06.2021 को प्रातः 10.00 बजे से दिनांक 30.06.2021 को समय 5.00 बजे तक डाउनलोड / अपलोड की जा सकती है। ई-निविदा को दिनांक 01.07.2021 को समय 11.00 बजे गठित समिति

के समक्ष खेली जायेंगी। कार्यों का विवरण व अन्य शर्तें वेबसाईट

हस्ता./-हस्ता./-(विजेता गुप्ता) (अनुपम शुक्ला) अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत खुटार नगर पंचायत खुटार शाहजहापुर। शाहजहाँपुर

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank परिशिष्ट IV [नियम (8)] (कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

www.etender.up.nic.in पर उपलब्ध है।

सी-15, कम्युनिटी सेन्टर जनक सिनेमा के पास जनकप्री, दिल्ली-58 फोन नं. 25541244, 25614414,

शाखा, नई दिल्ली (UBIN0553280) का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत शक्तियों के अंतर्गत कर्जदार 1. मैसर्स एन.डी. फार्मा (पैन-AEKPD4900Q) (श्री नवनीत देवासर (उधारकर्ता) (पैन-AEKPD4900Q) 2. श्री सुनीत कुमार शर्मा (गारंटर) (पैन-BBXPS9475A) 3. श्री प्रेम कुमार देवासर (गारंटर) (पैन- AISPD7425N) को एक मांग सूचना दिनांक 08.04.2021 को जारी किया था जिसमें सूचना मे उल्लेखित राशि रू 46,51,366.63 (रु. छियालीस लाख इक्यावन हजार तीन सौ छियासठ और पैसे तिरेसठ मात्र) उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भगतान करने को कहा गया था।

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति

हित अधिनियम 2002 (2002 का 54) के प्रवर्तन के अधीन युनियन बैंक ऑफ इंडिया, जनकप्री

उधारकर्ता और गारंटर उक्त राशि का भूगतान करने में असफल हो गये हैं इसलिये एतदद्वारा उधारकर्ता और गारंटर तथा सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने सुरक्षा हित प्रवर्तन के नियम 8 साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा दिनांक 16.06.2021 को ले लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतदद्वारा उक्त संपत्तियों के साथ लेन-देन न

करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन युनियन वैंक ऑफ इंडिया, के प्रभार वास्ते राशि रू 46,51,366.36 और भविष्य का ब्याज इत्यादि सहित के अधीन उघारकर्ता का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8), के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित

परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है। अचल / बंधक संपत्ति(यों) का विवरण डब्ल्यूजेड-244, राज नगर, पार्ट-।।, पालम कॉलोनी, नई दिल्ली में स्थित, रजिस्ट्रेशन डीड नंबर 15212, बुक नंबर 1 वॉल्यूम 647, पेज 184 से 185, दिनांक 15-11-1966, रजिस्ट्रार

एसआर ।।, नई दिल्ली में पंजीकृत, चौहद्दी : उत्तर में – डब्ल्यूजेड– 245, दक्षिण में – डब्ल्यूजेड — 243, पूरब में — रोड़ "15", पश्चिम में — रोड "20

प्राधिकृत अधिकारी, स्थान : नई दिल्ली युनियन बैंक ऑफ इंडिया

एलसीआरडी डिविजन / नई दिल्ली फडरल बक फेडरल टॉवर, 2/2, प्रथम तल, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली-110008 आपका सम्पूर्ण बैंकिंग भागीदार

सरफेसी अधिनियम, 2002 की घारा 13(2) (यहां के बाद अधिनियम के रूप में संदर्भित) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत सूचना 1. श्री रिव कुमार पुत्र श्री करन सिंह, मैसर्स कन्हैया एन्टरप्राइजेज एण्ड कोटिंग के नाम तथा स्टाइल पर व्यवसाय करते हुए, प्लॉट नं. 2, गली नं. 1, राजीव कॉलोनी, समयपुर रोड,

बल्लभगढ़, सेक्टर-56, हरियाणा साथ ही : मकान नं. 22, समयपुर रोड, राजीव कॉलोनी, झरसैंटली, बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004 2. श्रीमती कुसुम पत्नी रिव कुमार, मकान नं. 22, समयपुर रोड, राजीव कॉलोनी, झरसैंटली,

फोन नं. 011-40733980, 40733978

बल्लभगढ़, फरीदाबाद-121004 3. श्री करन सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह, मकान नं. 22, समयपुर रोड, राजीव कॉलोनी, झरसैंटली,

प्रधान कर्जदार के रूप में आप प्रथम ने तथा सह-दायित्वधारी के रूप में आप द्वितीय तथा तृतीय ने बैंक के पक्ष में आवश्यक प्रतिभृति समझौते/ऋण दस्तावेज के क्रियान्वयन के पश्चात 14.03.2016 को रु. रु. ८ लाख (रुपये आठ लाख मात्र) का नकद साख सीमा और रु. ८ लाख (रुपये आठ

लाख मात्र) का सावधि ऋण ग्रहण किया। बैंक से ग्रहण उपर्युक्त प्राप्त साख सुविधाओं की प्रतिभृति की ओर आपने प्लॉट सं. 2, गली नं. 1 राजीव कॉलोनी, समयपुर रोड, बल्लभगढ़, सेक्टर 56, हरियाणा पर निम्नलिखित सम्पत्तियों के

परिप्रेक्ष्य में दृष्टिबंधक के माध्यम से बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजित किये: दुष्टिबंधक चल सम्पत्तियों का विवरण सीसी लिमिट हेतु-1. 40% मार्जिन के साथ बुक डैट का दृष्टिबंधक 2. 25% मार्जिन के साथ स्टॉक का दुष्टिबंधक

टीएल हेतु : 14.03.2016 तक रु. 1088428/- मूल्य की क्रय की गयी मशीनरी का दृष्टिबंधक।

बैंक से ग्रहण उपर्युक्त साख सुविधाओं की प्रतिभृति की ओर आप में से प्रथम अर्थात श्री करन सिंह पुत्र श्री गुलाब सिंह ने निम्नलिखित अचल सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में बंधक के माध्यम से बैंक के पक्ष में प्रतिभूति हित सृजित किए। निम्नलिखित अचल सम्पत्ति के परिप्रेक्ष्य में सृजित कथित बंधक ग्रहण किये गये ऋण के परिप्रेक्ष्य में जारी हैं।

बंधक अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति माप 120 वर्ग गज, मकान नं. एमसीएफ 1293/1071 (खसरा नं. 8//20(6-14) का भाग निर्मित करने वाली), राजीव कॉलोनी, समयपुर रोड, झारसैंटली, बल्लभगढ़, फरीदाबाद पर स्थित सम्पत्ति का सम्पूर्ण भाग, साथ ही वर्तमान अथवा निर्मित होने वाले समस्त भवन, सीमाएं : उत्तर अन्य की सम्पत्ति, दक्षिण : सड़क, पूर्व : राम गोपाल का प्लॉट, तथा पश्चिम : राम लाल की सम्पत्ति।

उपर्युक्त दृष्टिबन्धक/गिरवीकृत सम्पत्तियों को इसके बाद 'प्रतिभृत आस्ति' कहा जायेगा। अधोहस्ताक्षरी फे-डरल बैंक लि. के अधिकृत प्राधिकारी होने के नाते आपको एतद्वारा सचित करता है कि आपके पास बैंक की फरीदाबाद शाखा के साथ 31.05.2021 तक आपके कैश क्रेडिट खाता 3815500903336 के तहत लागतों तथा अन्य प्रभारों सहित रु. 8,63,699/12 (रुपये आठ लाख तिरेसठ हजार छः सौ निन्यानबे एवं बारह पैसे मात्र) तथा 14.05.2021 तक सावधि ऋण खाता में लागतों एवं अन्य प्रभारों सहित रु. 2,99,811.25 (रुपये दो लाख निन्यानबे हजार आठ सौ ग्यारह एवं पच्चीस पैसे मात्र) अर्थात कुल रु. 11,63,510.37 (रुपये ग्यारह लाख तिरेसठ हजार पाँच सौ दस एवं सैंतीस पैसे मात्र) बकाया है। पनर्भगतान में चक करने के कारण आपके ऋण खाते/खातों को आरबीआई के दिशा-निर्देश के अनसार 29.08.2019 को नॉन-परफॉर्मिंग आस्ति के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया है।

एतद्वारा आपको इस सचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर भगतान तथा लागतों की तिथि तक सीसी खाता सं. 13815500003336 में 01.06.2021 से वार्षिक रेस्ट्स सहित 12.88% वार्षिक की दर से भावी ब्याज तथा २% वार्षिक की दर से दण्डात्मक ब्याज और सावधि ऋण खाता 13816900001730 में 15.05.2021 से मासिक रेस्ट्स सिहत 14.08% की वार्षिक दर से ब्याज तथा 2% वार्षिक की दर से दण्डात्मक ब्याज सहित कथित राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है जिसमें असफल रहने पर बैंक बिना कोई अन्य सूचना दिये अधिनियम की धारा 13 के तहत समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और उपर्युक्त प्रतिभूत आस्तियों पर कब्जा करने सहित उन्हें बकाया वसूली के लिए प्रतिभृति आस्तियों को पट्टे, आवंटन अथवा विक्रय के माध्यम से अन्तरित करने या उन पर प्रबन्धन के अधिकार का प्रयोग करेगा। आपको सुचित किया जाता है कि बैंक की बिना लिखित सहमित के उपर्यक्त प्रतिभत आस्तियों में से आप किसी का भी विक्रय, पट्टे या अन्य विधि द्वारा अन्तरण नहीं करेंगे। अपने दायित्व के निर्वहन में असफल रहने की स्थिति में और उपर्युक्त के अनुसार बैंक के उपचारात्मक कार्यवाही करने की स्थिति में आप इस सम्बन्ध में आयी सभी लागत, प्रभार तथा व्यय बैंक को देने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि प्रतिभूत आस्तियों की विक्रय कार्यवाही से बकाये की वसुली नहीं हो पाती है तो बैंक आपको बिना कोई अन्य सुचना दिये शेष राशि की वसूली हेतु आपके विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यवाही करेगा। प्रतिभृत आस्तियों (प्रतिभृत सम्पत्तियों) को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में आपका ध्यान अधिनियम की धारा 13(8) की ओर आकर्षित

किया जाता है। यह सूचना बैंक के अपने बकायों की वसूली हेत् उसके पास उपलब्ध अन्य अधिकारों तथा उपचारों के पर्वाग्रह के बिना जारी की गयी है। यह सचना 7 जन, 2021 को निर्गत की गयी थी और आपके पास भेजी गयी थी किन्तु प्रतीत होता है कि आपने इसे ग्रहण नहीं किया जिसके कारण सरफैसी अधिनियम के अनुसार इस प्रकाशन की आवश्यकता पडी।

> कृते फेडरल बैंक लिमिटेड, उप उपाध्यक्ष (सरफ़ेसी अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

आज दिनांक 21 जून 2021

www.readwhere.com

प्रपत्र–'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

प्रासंगिक विवरण

संकल्प योजनाओं के लिए अनुरोध और किसी भी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए क्रमांक सं. 21 में उल्लिखित

समाधान प्रोफेशनल की ईमेल cirp.fdh@gmail.com पर 23 जून 2021 23. प्रपत्र "जी" के प्रकाशन की तिथि हेमंत गुप्ता

KAPIL RAJ FINANCE LIMITED

Registered Office: 23. II" FLOOR, North West Avenue.

This has reference to the notice dated 31st May, 2021 convening Extra Ordinary General Meeting of the members of the Company on Wednesday, 30th June, 2021 at 11:30 A.M. through

one column will be added mentioning the category as non promoter against all the proposed

Place: Delhi Date: 22.06.2021 शाखाः कविनगर, २सी/130ए, निकट गन्धर्व विद्यालय, नेहरू नगर,

यूनियन वैक 🕼 Union Bank 8 अनडिलिवर्ड डिमांड नोटिस के सम्बन्ध में सार्वजनिक सूचना -13(2) सरफेसी नोटिस

दिनांक : 22 जून, 2021 डीई नीर्स ट्रल्स एलएलपी

गाजियाबाद के भार के अधीन होगा।

1

No. 805 / EDD(D) / Date : 22-06-2021

विद्युत सम्बन्धी शिकायत हेत् (टोल फ्री नं० 180041290405) राष्ट्रीय हित में विद्युत बचायें।

अधिशासी अभियंता

16

For And On Behalf Of Dhani Services Limited

Year

ended

Audited

(90.82)

(90.82)

(90.82)

(90.98)

126.37

For SCHABLONA INDIA LIMITED

KAPIL RAJ FINANCE LIMITED

(Satish C. Vishwakarma)

(DIN: 06891937)

Executive Director & CFO

(2,289.71)

57.19

31.03.2021

Lalit Sharma

Company Secretary

(Rs. in Lakhs)

Correspond-

ing 3 months

ended in

previous year

31.03.2020

Audited

25.86

6.90

6.90

6.90

6.69

126.37

0.21

0.21

dhanl services

Dhani Services Limited

(formerly Indiabulls Ventures Limited)

Registered Office: M-62 & 63, First Floor, Connaught Place, New Delhi - 110 001

Phone: +91 11 30252900, Fax: +91 11 30252901 Email: lalit.s6@dhani.com

Website: www.dhani.com

CIN: L74999DL1995PLC069631

NOTICE

General Notice under Section 201 of the Companies Act, 2013 is hereby given that

Company intends to make an application for approval of the Central Government

under Section 196 of the Companies Act, 2013 and / or any other relevant provision.

enactment, rules, regulations, etc in this regard, for Mr. Sameer Gehlaut to continue

with his existing managerial position as Whole Time Director & Key Managerial

SCHABLONA INDIA LIMITED

CIN:L51109DL1983PLC318655

Regd.Office: 82/19, Bhakerwara Road, Mundka,

New Delhi-110 041; Tel: 011-2834 1085

QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2021

Website: www.schablona.in. Email id: silinvestors@schablona.in

STATEMENT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE

Quarter

ended

31.03.2021

Audited

(26.96)

(26.96)

(26.96)

(27.12)

126.37

(0.86)

(0.86)

Earnings Per Share of Rs. 4/- each (before / after extraordinary items)

The above is an extract of the detailed format of the guarter and year

ended Financial Results filed with the Stock Exchange, i.e. BSE

Limited, under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and

Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the

quarter and year ended Financial Results is available on the BSE

Limited website,i.e. www.bseindia.com and on the website of the

Personnel upto September 24, 2025.

: New Delhi

: 22.06.2021

Particulars

Total income from operations

(before tax, Exceptional and

/ or Extraordinary items)

/or Extraordinary items)

/ or Extraordinary items)

Equity Share Capital

Net Profit / (Loss) for the period

Net Profit / (Loss) for the period

Net Profit / (Loss) for the period

after tax (after Exceptional and

Total Comprehensive Income for

the period [Comprising Profit / (Loss

for the period (after tax) and Other

Comperhensive income (after tax)

Reserves (excluding Revaluation

Balance Sheet of the previous year

Company, i.e. www.schablona.in

Reserve) as shown in Audited

before tax (after Exceptional and

Place

Date

FEDERAL BANK

NOTICE U/S 13 (2) OF SARFAESI ACT 2002, (hereinafter referred to as Act) r/w Rule 3(1) OF SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES, 2002.

 Sh. Ravikumar, S/o Sh. Karan Singh carrying on business in the name and style o M/s Kanhya Enterprises and Coating, Plot No.2, Gali No.1, Rajeev Colony, Samayapu Road, Ballabgarh, Sector 56, Haryana.

Also at: House No.22, Samaypur Road, Rajeev Colony, Jharsaintly, Ballabgarh, Faridabad-121004

(2) Smt. Kusum, W/o Ravikumar, ouse No.22, Samaypur Road, Rajeev Colony, Jharsaintly, Ballabgarh, Faridabad-121004.

(3) Sh. Karan Singh, S/o Sh. Gulab Singh, House No.22, Samayour Road, Rajeev Colony, Jharsaintly, Ballabgarh, Faridabad-121004

The 1" of you as principal borrower and 2" to 3" of you as co-obligants had availed

of, inter alia, Cash Credit Limit of Rs.8L (Rupees Eight Lakhs Only) & Term Loan of Rs 8L (Rupees Eight Lakhs only) on 14.03.2016 after executing necessary security agreements / loan documents in favour of the Bank. Towards the security of the aforesaid credit facilities availed from the Bank, all of you

have created security interest in favour of the Bank by way of hypothecation in respect of the following properties stored at Plot No.2, Gali No.1, Raieev Colony, Samayapur Road, Ballabgarh, Sector 56, Haryana.

DESCRIPTION OF HYPOTHECATED MOVABLE PROPERTIES

For CC LIMIT-1. Hypothecation of book debts with 40 % margin

2. Hypothecation of Stock with 25 % margin For TL- Hypothecation of machineries purchased valued Rs. 1088428/- as on 14-03-2016

Towards the security of the aforesaid credit facilities availed by from the Bank. The first of you i.e. Sh. Karan Singh, S/o Sh. Gulab Singh has created security interest in favour of the Bank by way of mortgage in respect of the following immovable property. The said mortgage is created in respect of the following immovable property is continuing in respect of the loans availed.

DESCRIPTION OF MORTGAGED IMMOVABLE PROPERTY All that piece and parcel of property admeasuring 120sqyd situated at House

No.MCF-1293/1071, (forming part of Khasra No.8//20(6-14) Rajeev Colony, Samaypur Road, Jharsaintly, Ballabgarh, Faridabad together with all buildings existing or to be constructed bounded on the North by other property, South by Road, East by plot of Ram Gopal and West by Property of Ram Lal.

The aforesaid hypothecated / mortgaged properties hereinafter referred to as "the secured assets'. The undersigned being Authorised Officer of the Federal Bank Ltd. hereby inform you that a sum of ₹ 8,63,699/12 (Rupees Eight Lakh Sixty Three Thousand Six Hundred Ninety Nine and Paise Twelve only) plus costs and other charges is due in the Cash Credit account13815500003336 on 31/05/2021 and a sum of ₹ 2,99,811.25 (Rupees Two Lakh Ninety Nine Thousand Eight Hundred Eleven and Paise Twenty Five Only) plus costs and other charges is due in the Term Loan account as on 14.05.2021 ie a total of ₹11,63,510.37 (Rupees Eleven Lakhs Sixty Three Thousand Five Hundred Ten and Paise Thirty Seven only) is due with Faridabad branch of the Bank.In view of the default in repayment, your loan account/s is/are classified as Non-Performing Asset on 29.08.2019, as per the guideline of RBI.

You are hereby called upon to pay the said amount with further interest @ 12.88% per annum with yearly rests plus penal interest @2% pa from 01.06.2021 in CC A/c No.13815500003336 and @ 14.08 % per annum with monthly rests plus penal interest @2% pa from 15/05/2021 in TL A/c No.13816900001730 till the date of payment and costs within 60 days from the date of this notice, failing which, the Bank will exercise all the powers under section 13 of the Act against you and the above mentioned secured assets such as taking possession thereof including the right to transfer them by way of lease, assignment or sale, or taking over the management of the secured assets for realising the dues without any further notice to you. It is informed that, you shall not transfer by way of sale, lease or otherwise any of the above mentioned secured assets without the Bank's written consent. In the event of your failure to discharge your liability and the bank initiates remedial actions as stated above, you shall further be liable to pay to the bank all cost, charges and expenses incurred in that connection. In case the dues are not fully satisfied with the sale proceeds of the secured assets, the bank shall proceed against you personally for the recovery of the balance amount without further notice. Your attention is also invited to the provisions of section 13 (8) of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets (security properties).

This notice is issued without prejudice to the other rights and remedies available to the bank for recovering its dues. This notice was issued on 07th day of June 2021 and the same was served on you but seems not received by you which necessitated this publication as per the SARFAESI Act.

Dated this the 21" Day of June 2021

competent authority.

goods and other related items.

Dated this 22" day of June, 2021.

(except Saturday, Sunday and holidays).

For The Federal Bank Ltd., Deputy Vice President (Authorised Officer under SARFAESI Act)

For All Advertisement Booking Call: 0120-6651214

"FORM NO. URC-2"

Advertisement giving notice about registration under

Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013

[Pursuant to Section 374(b) of the Companies Act, 2013

and Rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register)

Rules, 2014]

Notice is hereby given that in pursuance of sub-

section (2) of Section 366 of the Companies Act, 2013,

an application is proposed to be made after fifteen

days hereof but before the expiry of thirty days

hereinafter to the Registrar at Central Registration

Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs

(IICA), Plot No. 6,7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District

Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050/ the Registrar of

Companies, NCT of Delhi and Haryana or any other

competent authority that M/s. Tangent Power, a

partnership firm, may be registered under Part I of

Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a company

limited by shares in the name and style of Tangent

Power Private Limited or any other name as may be

approved by Registrar at Central Registration Centre

(CRC)/Registrar of Companies or any other

The Principal objects of the proposed company are as

To carry on the business of manufacture, buy, sell,

import, export, assemble and deal in power products

and its parts, UPS, inverters, transformers, stabilizers,

servo stabilizers, PCB assembly, plastic and metal

parts of UPS, inverters, E- Rickshaw chargers,

transformers and any type of Electrical & Electronic

A copy of the draft Memorandum and Articles of

Association of the proposed company may be

inspected at the office at H-41, Udyog Nagar, Main

Rohtak Road, New Delhi-110041, during business hours

Between 10:00 A.M to 5:00 P.M on all working days

Notice is hereby given that any person objecting to

this application may communicate their objection in

writing to the Registrar at Central Registration Centre

(CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot

No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon

(Haryana), Pin Code-122050, within twenty one clear

days from the date of publication of this notice, with a

copy to the Partnership Firm at its Office situated at H-

41, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, Delhi - 110041 and

the proposed company at its proposed registered

office at H-56, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, New

1. Nand Kishore Aggarwal

Address: House No. 22, Road No. 78,

Address: H. No. 35-A. Road No. 77.

West Punjabi Bagh, New Delhi-11002

West Punjabi Bagh, New Delhi-110026

Name(s) of Applicant

"FORM NO. URC-2"

Advertisement giving notice about registration under

Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013

[Pursuant to Section 374(b) of the Companies Act, 2013

and Rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register)

Rules, 2014]

Notice is hereby given that in pursuance of sub-section

(2) of Section 366 of the Companies Act, 2013, an

application is proposed to be made after fifteen days

hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to

the Registrar at Central Registration Centre (CRC),

Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7,

8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin

Code-122050/ the Registrar of Companies, NCT of Delhi

and Haryana or any other competent authority that M/s.

Balaji Powertronics, a partnership firm, may be

registered under Part I of Chapter XXI of the Companies

Act, 2013, as a company limited by shares in the name

and style of Balaji Power Products Private Limited or

any other name as may be approved by Registrar at

Central Registration Centre (CRC)/ Registrar of

The Principal objects of the proposed company are as

To carry on the business of manufacture, buy, sell,

import, export, assemble and deal in power products

and its parts, UPS, inverters, transformers, stabilizers,

servo stabilizers, extension boards, surge suppressors,

computers, its peripherals & parts, computer software,

wires, cables and in all types of electronics and electrical

A copy of the draft Memorandum and Articles of

Association of the proposed company may be

inspected at the office at H-56, Udyog Nagar, Main

Rohtak Road, New Delhi-110041, during business hours

Between 10:00 A.M to 5:00 P.M on all working days

Notice is hereby given that any person objecting to this

application may communicate their objection in writing

to the Registrar at Central Registration Centre (CRC),

Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7,

8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin

Code-122050, within twenty one clear days from the

date of publication of this notice, with a copy to the

Partnership Firm at its Office situated at H-56, Udyog

Nagar, Main Rohtak Road, Delhi - 110041 and the

proposed company at its proposed registered office at

H-56, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, New Delhi-

Companies or any other competent authority.

goods and any other related items.

(except Saturday, Sunday and holidays).

follows:-

2. Subodh Gupta

BHARAT EKANSH LIMITED CIN: L74899DL1985PLC020973 Regd. Off.: PLOT No. 586, Pocket C, IFC, Ghazipur, East Delhi 110096 Ph. No.: +91 9355777336;

Website: www.bharatekanshlimited.com E-mail: bharat.ekansh.limited@gmail.com NOTICE

Pursuant to the Regulation 29, Regulation 47 and other applicable Regulations, if any of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is | 02.00 p.m. inter-alia, to consider and approve Audited hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30th June, 2021, interalia, to consider and approve the Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) of the Company for quarter and year ended the 31 March, 2021. This information is also available on the

website of the Company i.e. www.bharatekanshlimited.com. For Bharat Ekansh Limited Place: New Delhi Sd/-

Date: 23.06.2021 Mukesh Kumar Nagar Company Secretary & Compliance Officer

the same for details.

Date: June 22, 2021

यूनियन बैंक 🕼 Union Bank

Andhra Carperation

days from the date of receipt of the said notice.

-243, East - Road "15", West - Road "20

Date: 16-06-2021

Place: New Delhi

"FORM NO. URC-2"

Advertisement giving notice about registration under

Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013

(Pursuant to Section 374(b) of the Companies Act, 2013

and Rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register)

Rules, 2014]

Notice is hereby given that in pursuance of sub-

section (2) of Section 366 of the Companies Act, 2013,

an application is proposed to be made after fifteen

days hereof but before the expiry of thirty days

hereinafter to the Registrar at Central Registration

Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs

(IICA), Plot No. 6,7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District

Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050/ the Registrar of

Companies, NCT of Delhi and Haryana or any other

competent authority that M/s. Universal Power

Products, a partnership firm, may be registered under

Part Lof Chapter XXI of the Companies Act. 2013, as a

company limited by shares in the name and style of

Microtek UPP Private Limited or any other name as

may be approved by Registrar at Central Registration

Centre (CRC)/Registrar of Companies or any other

The Principal objects of the proposed company are as

To carry on business as Manufacture, Buy, Sell, Import,

Export, Assemble and deal in Power Products and its

parts, UPS, Inverters, Transformers, Stabilizers, Servo

Stabilizers, PCB Assembly, Plastic and Metal Parts of

UPS, Inverters, E-Rickshaw chargers, Transformers

and any type of Electrical & Electronic Goods and any

A copy of the draft Memorandum and Articles of

Association of the proposed company may be

inspected at the office at H-56, Udyog Nagar, Main

Rohtak Road, New Delhi-110041, during business hours

Between 10:00 A.M to 5:00 P.M on all working days

Notice is hereby given that any person objecting to

this application may communicate their objection in

writing to the Registrar at Central Registration Centre

(CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot

No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon

(Haryana), Pin Code-122050, within twenty one clear

days from the date of publication of this notice, with a

copy to the Partnership Firm at its Office situated at H-

56, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, Delhi - 110041 and

the proposed company at its proposed registered

office at H-56, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, New

1. Nand Kishore Aggarwal

Address: House No. 22, Road No. 78,

Address: H. No. 35-A. Road No. 77.

West Punjabi Bagh, New Delhi-110026

West Punjabi Bagh, New Delhi-110026

Name(s) of Applicant

"FORM NO. URC-2"

Advertisement giving notice about registration under

Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013

[Pursuant to Section 374(b) of the Companies Act, 2013

and Rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register)

Rules, 2014]

Notice is hereby given that in pursuance of sub-

section (2) of Section 366 of the Companies Act, 2013.

an application is proposed to be made after fifteen

days hereof but before the expiry of thirty days

hereinafter to the Registrar at Central Registration

Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs

(IICA), Plot No. 6.7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District

Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050/ the Registrar of

Companies, NCT of Delhi and Haryana or any other

competent authority that M/s. Himachal Power

Products, a partnership firm, may be registered under

Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a

company limited by shares in the name and style of

Microtek HPP Private Limited or any other name as

may be approved by Registrar at Central Registration

Centre (CRC)/Registrar of Companies or any other

The Principal objects of the proposed company are as

To carry on business as Manufacture, Buy, Sell, Import,

Export, Assemble and deal in Power Products and its

parts, UPS, Inverters, Transformers, Stabilizers, Servo

2. Subodh Gupta

(except Saturday, Sunday and holidays).

competent authority.

other related items.

Delhi-110041.

Dated this 22" day of June, 2021.

follows:-

NAM SECURITIES LIMITED CIN: L74899DL1994PLC350531 Regd. Off: 213. Arunachal Building, 19. Barakhamba Road, New Delhi-110001 Email Id: compliance@namsecurities.in, Website: www.namsecurities.in, Tel: 011-23731122/ 44

NOTICE

Notice is hereby given Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & isclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of Board of Directors of Nam Securities imited is scheduled to be held on Wednesday, June 0, 2021 at its registered office at 213, Arunachal Building, 19, Barakhamba Road, New Delhi-110001 at Financial Results of the Company for the Quarter and ear ended 31" March, 2021

urther, in accordance with the provision of SEBI (Prohibition of Insider Trading) (Amendment) Regulations, 2018, Company's Code of Conduct to legulate, Monitor and Report Trading by Insider and BSE circular dated 2" April, 2019 regarding clarification on trading restriction period, the trading window shall continue to be closed till the completion of 48 hours after the results are made public on June This intimation is available on BSE website

website (http://www.namsecurities.in/). For NAM Securities Limited Date: 22.06.2021 elhi (Divya Bisht) Company Secretary& Compliance Officer

SHARIKA ENTERPRISES LIMITED

CIN: L51311DL1998PLC093690

Regd. Office: S-550-551, School Block Part-2, Welcome Plaza,

Shakarpur, Delhi-110092, Tel No: +91 120 2593900

Email: cs@sharikaindia.com, Website: www.sharikaindia.com

Pursuant to Regulation 29 and Regulation 47 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Notice is hereby given that Meeting of the Board of Directors of the Company will

be held on Wednesday, June 30, 2021 at 04:00 p.m. to, consider and approve, inter-

alia, the Audited Financial Results (Standalone & Consolidated) for the year ended

This notice is available on the website of the Company (www.sharikaindia.com)

and on the website of BSE(https://www.bseindia.com) and members may refer to

Appendix IV [Rule - 8 (1)]

POSSESSION NOTICE (For immovable property)

Whereas, the undersigned being the authorised officer of Union Bank of India,

Janakpuri Branch, New Delhi (UBIN0553280) under the Securitisation and

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement Security Interest Act, 2002 (Act No.

54 of 2002) and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with rule 3 of

the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 08-04-

2021 calling upon the borrower 1. M/s N.D. Pharma (PAN - AEKPD4900Q) (Mr. Navneet

Devasar (Borrower) (PAN - AEKPD4900Q) 2, Mr. Sunit Kumar Sharma (Guarantor)

(PAN - BBXPS9475A) 3. Mr. Prem Kumar Davasar (Guarantor) (PAN - AISPD7425N) to

repay the amount mentioned in the notice being Rs. 46,51,366.63 (Rs Forty Six Lakhs

Fifty One Thousand Three Hundred Sixty Six and Paisa Sixty Three Paise) within 60

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and

the public in general that the undersigned has taken possession of the property described

herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the

property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Union Bank

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13of the Act, in

DESCRIPTION OF THE PROPERTY

WZ-244, Raj Nagar, Part-II. Palam Colony, New Delhi, Purchased through

registration deed no. 15212, book no. 1 volume 647, page 184 to 185, dated 15-11-

1966, registered at registrar SR II, New Delhi, Bounded as : North - WZ- 245, South - WZ

Act read with rule 8 of the said rules on this 16th day of the June year 2021.

respect of time available to the borrower to redeem the secured assets.

of India for an amount Rs. 46,51,366.36 and interest thereon.

https://www.bseindia.com/) and on the Company's

For Sharika Enterprises Limited

C-15, Community Centre

Near Janak Cinema, Janakpuri

Ph.: 25541244, 25614414,

Company Secretary & Compliance Officer

Kush Mishra

Authorised Officer.

"FORM NO. URC-2"

Advertisement giving notice about registration under Part

I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013

[Pursuant to Section 374(b) of the Companies Act, 2013

and Rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register)

Rules, 2014]

Notice is hereby given that in pursuance of sub-section

(2) of Section 366 of the Companies Act, 2013, an

application is proposed to be made after fifteen days

hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to

the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian

Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6,7, 8, Sector

5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-

122050/ the Registrar of Companies, NCT of Delhi and

Haryana or any other competent authority that M/s.

Modulus Prefab Solutions Unit II, a partnership firm, may

be registered under Part I of Chapter XXI of the

Companies Act, 2013, as a company limited by shares in

the name and style of Modulus Prefab Solutions Private

Limited or any other name as may be approved by

Registrar at Central Registration Centre (CRC)/Registrar

The Principal objects of the proposed company are as

To carry on business as Manufacturing of Sheet Metal

bodies, DG canopies its product display devices, Sheet

Metal parts, racks and cabinets, agriculture equipments

and home appliances and accessories thereof,

transformer tanks, Electrical meter housing and other

accessories, metal fabrication and powder coating etc

A copy of the draft Memorandum and Articles of

Association of the proposed company may be inspected

at the office at H-41, Udyog Nagar, Main Rohtak Road,

New Delhi-110041, during business hours Between 10:00

A.M to 5:00 P.M on all working days (except Saturday,

Notice is hereby given that any person objecting to this

application may communicate their objection in writing

to the Registrar at Central Registration Centre (CRC),

Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8

Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin

Code-122050, within twenty one clear days from the

date of publication of this notice, with a copy to the

Partnership Firm at its Office situated at H-41, Udyog

Nagar, Main Rohtak Road, Delhi - 110041 and the

proposed company at its proposed registered office at

H-56, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, New Delhi-

1. Nand Kishore Aggarwal

Address: House No. 22, Road No. 78,

Address: H. No. 35-A, Road No. 77,

West Punjabi Bagh, New Delhi-110026

West Punjabi Bagh, New Delhi-110026

Name(s) of Applicant

"FORM NO. URC-2"

Advertisement giving notice about registration under

Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013

[Pursuant to Section 374(b) of the Companies Act, 2013

and Rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register)

Rules, 2014]

Notice is hereby given that in pursuance of sub-

section (2) of Section 366 of the Companies Act, 2013,

an application is proposed to be made after fifteen

days hereof but before the expiry of thirty days

hereinafter to the Registrar at Central Registration

Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs

(IICA), Plot No. 6,7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District

Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050/ the Registrar of

Companies, NCT of Delhi and Haryana or any other

competent authority that M/s. Shivalik Industries, a

partnership firm, may be registered under Part I of

Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a company

limited by shares in the name and style of Microtek

Shivalik Industries Private Limited or any other name

as may be approved by Registrar at Central

Registration Centre (CRC)/Registrar of Companies or

The Principal objects of the proposed company are as

To carry on the business of manufacture, buy, sell,

import, export, assemble and deal in Power Products

and its Parts, UPS, Inverters, Transformers, Stabilizers

Servo Stabilizers, PCB Assembly, Plastic and Metal

Parts Of UPS, Inverters, E-Rickshaw Chargers, and any

type of Electrical & Electronic goods and any other

A copy of the draft Memorandum and Articles of

Association of the proposed company may be

any other competent authority.

related items.

2. Subodh Gunta

of Companies or any other competent authority.

and other related items.

Sunday and holidays).

Dated this 22" day of June, 2021.

UNION BANK OF INDIA

Date: 22.06.2021

Place : Delhi

Read, Office: P.O.-Mohanlalganj, Lucknow-226301 (U.P.) Notice is hereby given that Board

U.P. ASBESTOS LIMITED

Meeting scheduled dated 24" day of June 2021 stands cancelled due to unavoidable reason(s). Further Notice is hereby given that Pursuant to Regulation 29(1)(A) read with Regulation 47 of the SEBI (LODR) Regulations

2015, meeting of the Board of Directors of the Company will be held on 28"June, 2021 at 01:30 P.M. at Mahmoodabad Estate Building, 15, Hazratganj, Lucknow-226001, inter-alia, to consider and take on record the Financial Results for the quarter/year ended 31" March, 2021 and other items.

Place: Lucknow (Manish Kr. Singh) Date: 22.06.2021 Company Secretary

For U.P. Asbestos Limited

NORTH EASTERN CARRYING CORPORATION LIMITED

CIN: L51909DL1984PLC019485

9062/47, Ram Bagh Road, Azad Market, Delhi - 110006

Email ID: cs@neccgroup.com, Tel No.: 011-23517516-19

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)

Regulations, 2015, we hereby give notice that the Meeting of the Board of Directors of the

Company is scheduled to be held on Wednesday, June 30, 2021 inter-alia to consider and approve

Audited Financial Results of the Company for the fourth quarter and year ended March 31, 2021.

Further, it is informed that as per Company's Code of Internal Procedures and Conduct for

Regulating, Monitoring and Reporting of Trading by Insiders framed pursuant to the SEBI

(Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 read with SEBI (Prohibition of Insider

frading) (Amendment) Regulations, 2018 as amended from time to time, the 'Trading

Window' is already closed from Thursday, April 1, 2021. The window will be opened from the

The information is also available on the Website of the Company www.neccgroup.com and

conclusion of 48 hours from the declaration of Audited Financial Results of the Company.

on the website of Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com and www.nseindia.com

🗥 M.K. EXIM (INDIA) LIMITED CIN: L63040RJ1992PLC00711 Registered Office: G-1/150, Garment Zone, E.P.I.P. RIICO

ndustrial Area, Sitapura, Sanganer, Jaipur -302022, Rajasthan Phone: 0141-3937501, Fax: +91-141-3937502 E-mail: mkexim@gmail.com, Web-Site: www.mkexim.com NOTICE FOR BOARD MEETING

NOTICE is hereby given, Pursuant to regulation 29 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015 (LODR), that a meeting of the Board of Directors of M.K.EXIM INDIA) LIMITED is scheduled to be held on Wednesday, 30th June, 2021 at Registered Office, to inter alia, to consider and approve the Audited Standalone & Consolidated inancial Results of the Company for the Quarter and Financial Year ended March 31, 2021 and other matters as per agenda.

The above can be accessed at the at the Company's website www.mkexim.com as vell as the BSE website www.bseindia.com

For M.K.Exim (India) Limited

Place: Jaipur Date: 21.06.2021

Compliance Officer

Prakriti Sethi Company Secretary

Date: 22.06.2021

CIN: L74999HR1989PLC032412

Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103 (Haryana) Website: www.itplgroup.com, Email.: grievence@itplgroup.com Tele. No.: 0120-7195236-239.

Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please be informed that Meeting of Board of Director of the Company will be held at 803-805, 8th Floor, Tower-2 Assotech Business Cresterra, Plot No. 22, Sector 135, Noida-201301 on Wednesday the 30th day of June, 2021 inter-alia, to

 To consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March

Statutory Auditor's Report on Audited Financial Results of the Company for year ended on 31st March, 2021; and

Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and as per the BSE circular LIST/COMP/O1/2019-20 dated April 2, 2019 the Trading Window for the securities of the Company has already been closed from April 1, 2021 till 48 hour after the declaration of Audited Financial Results.

For Innovative Tech Pack Limited

"FORM NO. URC-2"

CIN: L65910UP1993PLC070612 R/o: Shop No. 1 & 3, E-14/6 First Floor, Shanta Tower, Sanjay Place, Agra-282002

Email ID: annainfra@gmail.com,

Anna Infrastructures Limited

On behalf of the Board of Directors

Chairman & Managing Director

(Sunil Kumar Jain)

DIN: 00010695

Website: www.annainfrastructures.com, Telephone: 0562-2526650 Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure) Requirements) Regulation, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, 30" June, 2021 at 02:00 PM at registered office of the Company to consider and take on record inter-alia the Audited Financial Results for the Quarter ended 31" March, 2021.

may also access on the website of Stock Exchange i.e. www.bseindia.com. For & on behalf of Anna Infrastructures Limited

The said notice is also available on a website of

Company i.e. www.annainfrastructures.com and

Kanchan Agarwal Place: Agra (Company Secretary) Date: 22/06/2021

JAUSS POLYMERS LIMITED

Ka Meo Industrial Area, Sohna, Distt. Gurugram 122103 (Haryana) Website: www.iausspolymers.com. Email.: response@jausspolymers.com

Obligations and Disclosure Requirements! Regulations, 2015, please be informed that Meeting of Board of Director of the Company will be held at 801-802, 8th Floor, Tower-2, Assotech Business Cresterra, Plot No. 22. Sector 135, Noida-201301 on Wednesday, the 30th day of June, 2021 inter-alia, to consider and approve the following:

Auditor's Report on Audited Financial Results of the Company for year ended on 31° March, 2021; and

To consider and approve any other agenda

Pursuant to SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and as per the BSE circular LIST/COMP/01/2019-20 dated April 2, 2019, the Trading Window for the securities of the Company has already been closed from April 1 2021 till 48 hour after the declaration of Audited Financial Results.

Place: Noida

Innovative Tech Pack Limited

FORM G

INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST Under Regulation 36A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016

RELEVANT PARTICULARS

Name of the Corporate Debtor Date of incorporation of Corporate Debtor | 22" April 1999

Authority under which corporate debtor Registrar of Companies, New Delhi

is incorporated / registered

identification number of corporate debtor

office (if any) of corporate debtor

Insolvency commencement date of the

Date of invitation of expression of interest | 22nd June 2021 . Eligibility for resolution applicants under

section 25(2)(h) of the Code is available at email to cirp.fdh@gmail.com Norms of ineligibility applicable under Can be obtained by sending an

provisional list Date of issue of final list of prospective 2^{to} August 2021

resolution applicants evaluation matrix and request for resolution

plans to prospective resolution applicants

plan, evaluation matrix, information

memorandum and further information

matrix; request for resolution plans & any further information Last date for submission of resolution plans 23" August 2021

Resolution Professional at email: cirp.fdh@gmail.com 23" June 2021

New Delhi

110041.

1. Nand Kishore Aggarwal

financialexp.epap.in

Dated this 22rd day of June, 2021.

Address: House No. 22, Road No. 78,

Name(s) of Applicant

West Punjabi Bagh, New Delhi-110026 Address: H. No. 35-A, Road No. 77,

2. Subodh Gupta

West Punjabi Bagh, New Delhi-11002

Stabilizers, PCB Assembly, Plastic and Metal Parts of UPS, Inverters, Stabilizers, E-Rickshaw chargers, Transformers and any type of Electrical & Electronic Goods and any other related items. A copy of the draft Memorandum and Articles of Association of the proposed company may be inspected at the office at H-56, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, New Delhi-110041, during business

competent authority.

hours Between 10:00 A.M to 5:00 P.M on all working days (except Saturday, Sunday and holidays). Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre

(CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within twenty one clear days from the date of publication of this notice, with a copy to the Partnership Firm at its Office situated at H-56, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, Delhi - 110041 and the proposed company at its proposed registered office at H-56, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, New Delhi-110041. Dated this 22™ day of June, 2021.

Name(s) of Applicant

1. Nand Kishore Aggarwal Address: House No. 22, Road No. 78, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026 2. Subodh Gupta

Address: H. No. 35-A, Road No. 77, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026

inspected at the office at H-57, Udyog Nagar, Main (except Saturday, Sunday and holidays).

No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within twenty one clear days from the date of publication of this notice, with a copy to the Partnership Firm at its Office situated at H-57, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, Delhi - 110041 and the proposed company at its proposed registered office at H-56, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, New Delhi-110041. Dated this 22" day of June, 2021.

> Nand Kishore Aggarwal Address: House No. 22, Road No. 78, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026 2. Subodh Gupta Address: H. No. 35-A, Road No. 77,

Rohtak Road, New Delhi-110041, during business hours Between 10:00 A.M to 5:00 P.M on all working days Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot

Name(s) of Applicant

West Punjabi Bagh, New Delhi-110026

1. Nand Kishore Aggarwal

Address: House No. 22, Road No. 78, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026 2. Subodh Gupta Address: H. No. 35-A, Road No. 77, West Punjabi Bagh, New Delhi-110026

CIN: L74899HR1987PLC066065 Registered Office: Plot No. - 51, Roz

Tele. No.: 0120-7195236-239,

 To consider and approve the Audited Financial Results of the Company for the quarter and year ended on 31st March, 2021; To consider and take on record the Statutory

item as place on Board.

For Jauss Polymers Limited Rahul Kwatra

consider and approve the following:

agenda item as place on Board.

Mukesh Kumar Company Secretary

Place: Noida Date: 22.06.2021

The Principal objects of the proposed company are as

(except Saturday, Sunday and holidays). Notice is hereby given that any person objecting to this application may communicate their objection in

Delhi-110041. Dated this 22rd day of June, 2021.

To consider and take on record the

Advertisement giving notice about registration under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013 [Pursuant to Section 374(b) of the Companies Act, 2013

and Rule 4(1) of the Companies (Authorised to Register)

Rules, 2014]

To carry on business of Manufacturing of Sheet Metal components, MCB Boxes, Electrical boxes and job work of sheet metal components and any other related

Company Secretary

Registered Office: Plot No. - 51, Roz

Pursuant to Regulation 29 of the SEBI (Listing

To consider and approve any other

Notice is hereby given that in pursuance of sub-section (2) of Section 366 of the Companies Act, 2013, an application is proposed to be made after fifteen days hereof but before the expiry of thirty days hereinafter to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050/ the Registrar of Companies, NCT of Delhi and Haryana or any other competent authority that M/s. Kamla Fabricators, a partnership firm, may be registered under Part I of Chapter XXI of the Companies Act, 2013, as a company limited by shares in the name and style of Kamla Fabricators Private Limited or any other name as may be approved by Registrar at Central Registration Centre (CRC)/Registrar of Companies or any other competent

A copy of the draft Memorandum and Articles of Association of the proposed company may be inspected at the office at H-41, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, New Delhi-110041, during business hours Between 10:00 A.M to 5:00 P.M on all working days

writing to the Registrar at Central Registration Centre (CRC), Indian Institute of Corporate Affairs (IICA), Plot No. 6, 7, 8, Sector 5, IMT Manesar, District Gurgaon (Haryana), Pin Code-122050, within twenty one clear days from the date of publication of this notice, with a copy to the Partnership Firm at its Office situated at H-41, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, Delhi - 110041 and the proposed company at its proposed registered office at H-56, Udyog Nagar, Main Rohtak Road, New Name(s) of Applicant

Place: Noida

Date : 22.06.2021

o all the members/shareholders.

the same as stated in notice

the Exchange.

Place: Delhi

Date: 22.06.2021

Name & Address of the

1.Basic

2.Diluted

(CIN - L65929DL1985PLC022788) Registered Office: 23, II" FLOOR, North West Avenue, KAPIL RAJ FINANCE LIMITED Club Road, West Punjab bagh, New Delhi - 110026 Admin Office: 204B. Platinum Mall, Jawahar Road, Ghatkopar (East), Mumbai - 400077 Fel.No: 91-22-6127 5175, Email: kapilrajfin@gmail.com, Website: www.kapilrajfinanceltd.com

Meeting of the members of the Company on Wednesday, 30th June, 2021 at 11:30 A.M. through Video Conferencing/other Audio Visual Means ("VC/OAVM") The following additional information in the Notice is hereby notified through this Corrigendum

CORRIGENDUM TO THE NOTICE OF EXTRA

ORDINARY GENERAL MEETING

This has reference to the notice dated 31st May, 2021 convening Extra Ordinary General

In the resolution of Item no 2 and explanatory statement Item No 2 wherever the reference of regulation of chapter VII of SEBI (ICDR),2009 and Regulation of SEBI(ICDR), 2009 is appearing to be read as regulation of Chapter V of Sebi (ICDR), 2018 and Regulation of SEBI(ICDR), 2018 respectively.

In the resolution of Item no 2 pan of Amit Kothari is EDEPK7756H instead of DGEPK5582A. . In the resolution of Item no 2 against the table mentioning the name of the proposed allotees one column will be added mentioning the category as non promoter against all the proposed

In the resolution of Item no 2, 5,10,00,000 (Five Crore Ten lakhs) convertible warrants at a

Price of 10/- each shall be read as 51,00,000(Fifty One Lakh) Convertible warrants at a Price

In the Explanatory statement Item No 2 Part b after the disclosure the following shall be inserted None of the other Directors or KMP, Promoter of the Company intend to subscribe to

In the Explanatory statement Item No 2 Part c the subtotal of (B) shall be read as pre issue holding total 5140000 total percentage 100% and post issue holding 10240000 total In the Explanatory statement Item No 2 Part E regarding ultimate beneficial owners of the

proposed Allottees VIKRAM SINGH AND SONS HUF Vikram Singh (Karta) HAWA SINGH & SONS HUF Hawa Singh(Karta) KARAN SINGH & SONS HUF Karan Singh(Karta) RAM SINGH & SONS HUF Ram Singh(Karta)

proposed allottees in respect of the Sr. No. 9,14,15 and17 shall be read as under instead of

Further the ultimate beneficial owner(UBO) of KCK Industries Ltd Vikram Singh and Sons HUF is (Karta Vikram Singh) instead of (Vikram Singh) and the symbol of UBO of Sheorayan Engineers & Associates Private Limited is ## instead of # 8. In the Explanatory statement Item No 2 Part J wherever NSE if appearing should be read as

In the Explanatory statement Item No 2 Part M, the certificate from practising Chartered Accounted shall be read instead of Independent Statutory Auditor. In the Explanatory statement Item No 2 after the Part M. Part N shall be inserted as: n. Particulars of the issue including the maximum number of specified securities to be issued

Identity of the Natural person who

is the ultimate Beneficial owner

The Company is proposing to issue 51,00,000 convertible warrants at a Price of 10/- each to non promoters in terms of the Chapter V of SEBI (ICDR) Regulations, 2018. This Corrigendum is also being placed at the website of the Company and at the website of

By and on behalf of the Board

For KAPIL RAJ FINANCE LIMITED Komal Jain Company Secretary

FLORA DYEING HOUSE PRIVATE LIMITED

Under the Companies Act. 1956 Corporate identity number/limited liability U24299DL1999PTC099429 Address of the registered office & principal Registered Office; 3rd Floor, C-6, DSIDC Industrial Complex, Rohtak Road, Nangloi, Delhi - 110041 Works: Plot No. 392, HSIDC, Barhi, District Sonepat,

Harvana - 131028 7" April 2021 (Date of Receipt of Order 12th April 2021) Can be obtained by sending an

section 29A are available at: email to cirp.fdh@gmail.com Last date for receipt of expression of interest | 8" July 2021 Date of issue of provisional list of 18" July 2021 prospective resolution applicants Last date for submission of objections to 23st July 2021

Date of issue of information memorandum, 23" July 2021 Manner of obtaining request for resolution Resolution Applicant may communicate with resolution professional at the address mentioned against serial no. 21 for obtaining information memorandum, evaluation

In electronic form on email id cirp.fdh@gmail.com & Manner of submitting resolution by speed post/ by hand delivery in sealed envelope plans to resolution professional plan to the Adjudicating Authority for approval Name and registration number of the Hemant Gupta

Address and email to be used for correspondence with the resolution 24-A, Pocket-A, DDA LIG Flats, Hari Nagar, professional New Delhi- 110064 Email: cirp.fdh@gmail.com

Hemant Gupta Date: 22.06.2021 Resolution Professional in the matter of Flora Dyeing House Industries Limited

8. Estimated date for submission of resolution | 15" September 2021 Reg. No.: IBBI/IPA-001/IP-P01072/2017-2018/11763 resolution professional Name, Address & e-mail of the resolution 24-A. Pocket-A. DDA LIG Flats, Harl Nagar, New professional, as registered with the Board Delhi-110064 Email : hka.consutants@gmail.com 22 Further Details are available at or with 23. Date of publication of Form G

Regn. No.: IBBI/IPA-001/IP-P01072/2017-18/11763